

श्री गणपति अथर्वशीर्ष



॥ प्रारंभ ॥

ॐ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षन् तत्त्वमसि ।
त्वमेव केवलङ् कर्ताडसि । त्वमेव केवलन् धर्ताडसि ।
त्वमेव केवलम् हर्ताडसि । त्वमेव सर्वङ् खल्विदम् ब्रह्मासि ।
त्वं साक्षादात्माडसि नित्यम् ॥

हे ! गणेशा तुम्हे प्रणाम, तुम ही सजीव प्रत्यक्ष रूप हो, तुम ही कर्म और कर्ता भी तुम ही हो, तुम ही धारण करने वाले, और तुम ही हरण करने वाले संहारी हो । तुम में ही समस्त ब्रह्माण व्याप्त हैं तुम्ही एक पवित्र साक्षी हो ।

ऋतं वच्मि । सत्यं वच्मि ॥

ज्ञान कहता हूँ सच्चाई कहता हूँ ।

अव त्वम् माम् । अव वक्तारम् । अव श्रोतारम् । अव दातारम् ।
अव धातारम् । अवानूचानमव शिष्यम् । अव पश्चात्तात् । अव पुरस्तात् ।
अवोत्तरात्तात् । अव दक्षिणात्तात् । अव चोद्धवात्तात् । अवाधरात्तात् ।
सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात् ॥

तुम मेरे हो मेरी रक्षा करो, मेरी वाणी की रक्षा करो। मुझे सुनने वालो की रक्षा करो । मुझे देने वाले की रक्षा करो मुझे धारण करने वाले की रक्षा करो । वेदों उपनिषदों एवम उसके वाचक की रक्षा करो साथ उससे ज्ञान लेने वाले शिष्यों की रक्षा करो । चारो दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, एवम दक्षिण से सम्पूर्ण रक्षा करो ।

त्वं वाङ्मयस्त्वञ् चिन्मयः । त्वम् आनन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममयः ।
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोडसि । त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि ।
त्वम् ज्ञानमयो विज्ञानमयोडसि ॥

तुम वाम हो, तुम ही चिन्मय हो, तुम ही आनन्द ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम ही सच्चिदानन्द, अद्वितीय रूप हो , प्रत्यक्ष कर्ता हो तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ज्ञान विज्ञान के दाता हो ।

सर्वञ् जगदिदन् त्वत्तो जायते । सर्वञ् जगदिदन् त्वत्तस्तिष्ठति ।
सर्वञ् जगदिदन् त्वयि लयमेष्यति । सर्वञ् जगदिदन् त्वयि प्रत्येति ।
त्वम् भूमिरापोडनलोडनिलो नभः । त्वञ् चत्वारि वाष्पदानि ॥

इस जगत के जन्म दाता तुम ही हो, तुमने ही सम्पूर्ण विश्व को सुरक्षा प्रदान की हैं
सम्पूर्ण संसार तुम में ही निहित हैं पूरा विश्व तुम में ही दिखाई देता हैं तुम ही जल,
भूमि, आकाश और वायु हो | तुम चारों दिशा में व्याप्त हो |

त्वङ् गुणत्रयातीतः । त्वम् अवस्थात्रयातीतः ।

त्वन् देहत्रयातीतः । त्वङ् कालत्रयातीतः ।

त्वम् मूलाधारस्थितोडसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयात्मकः ।

त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वम् ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वम् रुद्रस्त्वम्
इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वञ् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्

तुम सत्व, रज, तम तीनों गुणों से भिन्न हो | तुम तीनों कालो भूत, भविष्य और वर्तमान से
भिन्न हो | तुम तीनों देहो से भिन्न हो | तुम जीवन के मूल आधार में विराजमान हो |
तुम में ही तीनों शक्तियां धर्म, उत्साह, मानसिक व्याप्त हैं | योगि एवम महा गुरु तुम्हारा
ही ध्यान करते हैं | तुम ही ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र हो | तुम मे ही गुणों
सगुण, निर्गुण का समावेश हैं |

गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिन् तदनन्तरम् । अनुस्वारः परतरः । धेन्दुलसितम् ।
तारेण ऋद्धम् । एतत्तव मनुस्वरूपम् । गकारः पूर्वरूपम् । अकारो मध्यमरूपम् ।
अनुस्वारश्चान्तरूपम् । बिन्दुरुत्तररूपम् । नादः सन्धानम् । संहिता सन्धिः ।
सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः । निचृद्गायत्री छन्दः । गणपतिर्देवता ।
ॐ गं गणपतये नमः ॥

“गण” का उच्चारण करके बाद के आदिवर्ण अकार का उच्चारण करें | ॐ कार का
उच्चारण करे | यह पुरे मन्त्र ॐ गं गणपतये नमः का भक्ति से उच्चारण करें |

एकदन्ताय विद्महे । वक्रतुण्डाय धीमहि ।

तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्

एकदंत, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं | हमें इस सद मार्ग पर चलने की भगवन प्रेरणा दे

एकदन्तञ् चतुर्हस्तम्, पाशमङ्कुशधारिणम् । रदञ् च वरदम् हस्तैर्बिभाणम्,

मूषकध्वजम् । रक्तं लम्बोदरं, शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् ।

रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम्, रक्तपुष्पैःसुपूजितम् । भक्तानुकम्पिनन् देवञ्,

जगत्कारणमच्युतम् । आविर्भूतञ् च सृष्ट्यादौ, प्रकृतेः पुरुषात्परम् ।

एवन् ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः

भगवान गणेश एकदन्त चार भुजाओं वाले हैं जिसमे वह पाश,अंकुश, दन्त, वर मुद्रा रखते हैं | उनके ध्वज पर मूषक हैं | यह लाल वस्त्र धारी हैं | चन्दन का लेप लगा हैं | लाल पुष्प धारण करते हैं | सभी की मनोकामना पूरी करने वाले जगत में सभी जगह व्याप्त हैं | श्रृष्टि के रचियता हैं | जो इनका ध्यान सच्चे हृदय से करे वो महा योगि हैं |

नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये,

नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय,

विघ्ननाशिने शिवसुताय, श्री वरदमूर्तये नमः ॥

व्रातपति, गणपति को प्रणाम, प्रथम पति को प्रणाम, एकदंत को प्रणाम, विघ्नविनाशक, लम्बोदर, शिवतनय श्री वरद मूर्ती को प्रणाम |

एतदथर्वशीर्षं योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कल्पते ।

स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते । स सर्वतः सुखमेधते ।

स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतम्

पापन् नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतम् पापन् नाशयति ।

सायम् प्रातः प्रयुञ्जानोऽपापो भवति । सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति ।

धर्मार्थकाममोक्षञ् च विन्दति । इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम् ।

**यो यदि मोहाद्दास्यतिस पापीयान् भवति । सहस्रावर्तनात् ।
यं यद् काममधीते तन् तमनेन साधयेत् ॥**

इस अथर्वशीष का पाठ करता हैं वह विघ्नों से दूर होता हैं | वह सदैव ही सुखी हो जाता हैं वह पंच महा पाप से दूर हो जाता हैं | सन्ध्या में पाठ करने से दिन के दोष दूर होते हैं | प्रातः पाठ करने से रात्रि के दोष दूर होते हैं | हमेशा पाठ करने वाला दोष रहित हो जाता हैं और साथ ही धर्म, अर्थ, काम एवम मोक्ष पर विजयी बनता हैं | इसका 1 हजार बार पाठ करने से उपासक सिद्धि प्राप्त कर योगि बनेगा |

**अनेन गणपतिमभिषिञ्चति । स वाग्मी भवति ।
चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति ।
इत्यथर्वणवाक्यम् । ब्रह्माद्यावरणम् विद्यात् ।
न बिभेति कदाचनेति ॥**

जो इस मन्त्र के उच्चारण के साथ गणेश जी का अभिषेक करता हैं उसकी वाणी उसकी दास हो जाती हैं | जो चतुर्थी के दिन उपवास कर जप करता हैं विद्वान बनता हैं | जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह भय मुक्त होता हैं |

**यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति । स वैश्रवणोपमो भवति ।
यो लाजैर्यजति, स यशोवान् भवति । स मेधावान् भवति ।
यो मोदकसहस्रेण यजति । स वाञ्छितफलमवाप्नोति ।
यः साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते ॥**

जो दुर्वकुरो द्वारा पूजन करता हैं वह कुबेर के समान बनता हैं जो लाजा के द्वारा पूजन करता हैं वह यशस्वी बनता हैं मेधावी बनता हैं जो मोदको के साथ पूजन करता हैं वह मनः अनुसार फल प्राप्त करता हैं | जो घृतात्क समिधा के द्वारा हवन करता हैं वह सब कुछ प्राप्त करता हैं |

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा, सूर्यवर्चस्वी भवति ।
सूर्यग्रहे महानद्याम् प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा, सिद्धमन्त्रो भवति ।
महाविघ्नात् प्रमुच्यते । महादोषात् प्रमुच्यते । महापापात् प्रमुच्यते ।
स सर्वविद् भवति, स सर्वविद् भवति । य एवम् वेद ॥

जो आठ ब्राह्मणों को उपनिषद् का ज्ञाता बनाता हैं वे सूर्य के सामान तेजस्वी होते हैं ।
सूर्य ग्रहण के समय नदी तट पर अथवा अपने इष्ट के समीप इस उपनिषद् का पाठ करे
तो सिद्धी प्राप्त होती हैं । जिससे जीवन की रूकावटे दूर होती हैं पाप कटते हैं वह
विद्वान हो जाता हैं यह ऐसे ब्रह्म विद्या हैं ।

शान्तिमन्त्र ॐ भद्रङ् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

हे ! गणपति हमें ऐसे शब्द कानो में पड़े जो हमें ज्ञान दे और निन्दा एवम दुराचार से
दूर रखे । हम सदैव समाज सेवा में लगे रहे था बुरे कर्मों से दूर रहकर हमेशा भगवान की
भक्ति में लीन रहें । हमारे स्वास्थ्य पर हमेशा आपकी कृपा रहे और हम भोग विलास से
दूर रहें । हमारे तन मन धन में ईश्वर का वास हो जो हमें सदैव सुकर्मों का भागी बनाये
। यही प्रार्थना हैं ।

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

चारो दिशा में जिसकी कीर्ति व्याप्त हैं वह इंद्र देवता जो कि देवों के देव हैं उनके जैसे
जिनकी ख्याति हैं जो बुद्धि का अपार सागर हैं जिनमे बृहस्पति के सामान शक्तियाँ हैं
जिनके मार्गदर्शन से कर्म को दिशा मिलती हैं जिससे समस्त मानव जाति का भला होता
हैं ।

इति श्री गणपति अथर्व शिर्षम सम्पूर्ण